

जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय  
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

06 अगस्त 2019

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया अपने आर्किटेक्चर छात्रों को ग्रीन बिल्डिंग लीडर बनाने के लिए शुरू करेगा एलईईडी  
लैब कोर्स

जामिया मिल्लिया इस्लामिया अपने आर्किटेक्चर के छात्रों के लिए जल्द ही एलईईडी  
लैब:लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वाइरन्मेन्टल डिज़ाइन: कोर्स शुरू करने जा रहा है। एलईईडी  
लैब कोर्स एक मल्टीडिसिप्लिनीरी इमर्शन कोर्स है, जो छात्रों को ग्रीन बिल्डिंग लीडर बनने के  
लिए तैयार करेगा। जामिया इस कोर्स का,े जीबीसीआई :ग्रीन बिजिनस सर्टिफिकेशन इंगक:  
इंडिया से मिलकर चलाएगा। जीबीसीआई ही वह संगठन है जो दुनिया भर में एलईईडी ग्रीन  
बिल्डिंग प्रोजेक्ट को सर्टिफाइ करता है।

विश्वविद्यालय के यासर अराफ़ात हाल में 8 अगस्त 2019 को एलईईडी लैब कोर्स का उद्घाटन  
कार्यक्रम होगा।

इस कोर्स में, छात्रों को ग्रीन बिल्डिंग की बुनियाद की अवधारणा के बारे में पढ़ाया जाएगा। यह  
कोर्स छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान प्रोजेक्ट आधारित अनुभव प्रदान कराएगा।

कोर्स के दौरान, छात्र जामिया कैंपस में मौजूदा सुविधाओं की पर्फार्मेंस का अध्ययन करेंगे और  
किसी एक बिल्डिंग को चुन कर, अपने पूरे एलईईडी कोर्स के लिए, बिल्डिंग आपरेशन एंड  
मैटेनन्स :एलईईडी ओ एम: प्रक्रिया को खुद पूरा करेंगे। इसका लक्ष्य होगा, इस सुविधा  
:इमारत: को सर्टिफाइ कराना।

सेमिस्टर के आखिर में , इस कोर्स में हिस्सा लेने वाले छात्रों को 'एलईईडी एपी ओ एम  
प्रोफेशनल क्रिडेन्शल ' को पाने का मौका मिलेगा। यह क्रिडेन्शल उनके कैरिअर के लिए बहुत ही  
अहम साबित होगा। यह उनके ग्रीन बिल्डिंग बनाने के अनुभव और ज्ञान का सुबूत होगा, जो

उन्हें रोज़गार दिलाने में अलग से मददगार साबित होगा।

इस कोर्स का लक्ष्य 21वीं सदी के प्रतिस्पर्धी माहौल की ज़रूरतों के अनुरूप, छात्रों को अपने आप को सक्षम बनाने के लिए है। इस कोर्स को करने से छात्र स्किल, ज्ञान और अनुभव से लैस होंगे। यही नहीं, यह कोर्स छात्रों को प्रभावशाली कम्यूनिकेटर, क्रिटिकल थिंकर, प्रॉब्लम साल्वर और टीम लीडर बनाने में मदद करेगा।

अहमद अज़ीम

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक